

**CLASS : 10th (Secondary)**

**Series : Sec. April/2021**

**Roll No.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Code No. 5503**

**SET : D**

## गणित

### MATHEMATICS

#### भाग - II

#### PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

#### (Objective Questions)

(Academic/Open)

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- कृपया जाँच कर लें कि भाग-II के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 40 हैं।

*Please make sure that the printed pages in this question paper of Part-II are 8 in number and it contains 40 questions.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

#### सामान्य निर्देश :

#### General Instruction :

- (i) सभी प्रश्न आनिवार्य हैं।


**All questions are compulsory.**

- (ii) सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

*Write **correct** answer in your answer-book.*

( 2 )

**5503/(Set : D)**

1. संख्या 156 को अभाज्य गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।  
Express 156 as a product of its prime factors 1
2. 26 और 91 का HCF क्या होगा ?  
What is HCF of 26 and 91 ? 1
3. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है।  
Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeroes are -3 and 2 respectively. 1
4.  $K$  के किन मानों के लिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा ?  
 $x - Ky + 4 = 0$  और  $2x - 6y - 5 = 0$ ।  
For what values of  $K$  does the pair of linear equations  $x - Ky + 4 = 0$  and  $2x - 6y - 5 = 0$  has no solution. 1
5.  $K$  के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण  $x^2 - Kx + 9 = 0$  के मूल बराबर होंगे।  
For what values of  $K$ , quadratic equation  $x^2 - Kx + 9 = 0$  has equal roots ? 1
6. A. P. 1, 4, 7, ..... का 7वाँ पद ज्ञात कीजिए।  
Find 7th term of A. P. 1, 4, 7, ..... . 1
7. आकृति में  $DE \parallel BC$  है।  $EC$  की लंबाई ज्ञात कीजिए।  
In figure  $DE \parallel BC$ . Find length of  $EC$ . 1
- 
8. यदि  $\sin A = \frac{4}{5}$ , तो  $\cos A$  का मान ज्ञात कीजिए।  
If  $\sin A = \frac{4}{5}$ , find the value of  $\cos A$ . 1
9.  $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$  का मान ज्ञात कीजिए।  
Find the value of  $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$ . 1

**5503/(Set : D)/ II**

- 10.** 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण  $90^\circ$  है। 1  
Find the area of a sector of a circle with radius 7 cm if angle of the sector is  $90^\circ$ .
- 11.** परिमेय संख्या  $\frac{15}{1600}$  के दशमलव प्रसार सांत है या असांत आवर्ती। 1  
Whether the rational number  $\frac{15}{1600}$  will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion.
- 12.** द्विघात समीकरण  $2x^2 - 5x + 2 = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। 1  
Find discriminant of quadratic equation  $2x^2 - 5x + 2 = 0$ .
- 13.** समांतर श्रेढ़ी 7, 5, 3, 1, ..... का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 1  
Find the common difference of A. P. 7, 5, 3, 1, .....
- 14.** A. P. : 2, 7, 12, ..... के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1  
Find the sum of first 6 terms of A. P. : 2, 7, 12, .....
- 15.** सभी वर्ग ..... होते हैं। (समरूप/ सर्वांगसम)  
All squares are ..... . (Similar/ Congruent) 1
- 16.** किसी वृत्त को दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ..... कहते हैं। 1  
A line intersecting a circle in two points is called .....
- 17.** बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लम्बाइयाँ ..... होती हैं। 1  
The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are .....
- 18.** बिन्दुओं  $(-2, 3)$  और  $(-5, 1)$  के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1  
Find the distance between the points  $(-2, 3)$  and  $(-5, 1)$ .

**19.**  $1 + \tan^2 \theta$  का मान = ..... होता है।

1

The value of  $1 + \tan^2 \theta$  = ..... .

**20.** यदि  $P(E) = 0.25$  है, तो 'E नहीं' की प्रायिकता क्या होगी ?

1

If  $P(E) = 0.25$ , what is the probability of event 'not E' ?

**21.** निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या अपरिमेय है ?

1

- (A)  $\sqrt{4}$       (B)  $\sqrt{9}$       (C)  $3\sqrt{2}$       (D)  $\sqrt{16}$

Which of these is an irrational number ?

- (A)  $\sqrt{4}$       (B)  $\sqrt{9}$       (C)  $3\sqrt{2}$       (D)  $\sqrt{16}$

**22.** द्विघात बहुपद  $2x^2 + x - 3$  के शून्यकों का योगफल है :

1

- (A)  $\frac{-3}{2}$       (B)  $\frac{-1}{2}$       (C)  $\frac{5}{2}$       (D)  $\frac{2}{3}$

Sum of zeroes of quadratic polynomial  $2x^2 + x - 3$  is :

- (A)  $\frac{-3}{2}$       (B)  $\frac{-1}{2}$       (C)  $\frac{5}{2}$       (D)  $\frac{2}{3}$

**23.** द्विघात समीकरणों के युग्म  $x + 3y - 3 = 0$  तथा  $2x + y - 5 = 0$  का हल होगा :

1

- (A) अद्वितीय एक हल      (B) कोई हल नहीं  
 (C) अपरिमित अनेक हल      (D) इनमें से कोई नहीं

The pair of linear equations  $x + 3y - 3 = 0$  and  $2x + y - 5 = 0$  has solution :

- (A) Unique solution      (B) No solution  
 (C) Infinitely many solutions      (D) None of these

**24.** इनमें से कौन-सी द्विघात समीकरण है ?

1

- (A)  $x^2 + 3x + 1 = (x - 2)^2$       (B)  $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$   
 (C)  $(x + 2)(x + 1) = (x - 1)(x - 3)$       (D)  $(x + 2)^3 = 2x(x^2 - 1)$

Which of these is a quadratic equation ?

- (A)  $x^2 + 3x + 1 = (x - 2)^2$       (B)  $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$   
 (C)  $(x + 2)(x + 1) = (x - 1)(x - 3)$       (D)  $(x + 2)^3 = 2x(x^2 - 1)$

( 5 )

5503/(Set : D)

**25.** द्विघात समीकरण  $x^2 - 5x + 6 = 0$  के मूल होंगे :

1

- (A) 2, 3      (B) 6, 1      (C) -3, 2      (D) 3, -2

Roots of the quadratic equation  $x^2 - 5x + 6 = 0$  are :

- (A) 2, 3      (B) 6, 1      (C) -3, 2      (D) 3, -2

**26.** इनमें से कौन-सी A. P. सिरीज है ?

1




Which one is A. P. series ?




**27.**  $\triangle ABC$  और  $\triangle PQR$  समरूप त्रिभुज हैं। इनमें समरूपता की कौन-सी कसौटी प्रयोग होगी ?

1






$\triangle ABC$  and  $\triangle PQR$  are similar. Which similarity criterion is used ?



( 6 )

5503/(Set : D)

- 28.** एक बिन्दु  $Q$  से एक वृत्त पर स्पर्शेखा की लम्बाई 24 सेमी तथा  $Q$  की केन्द्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है :

- From a point  $Q$ , the length of the tangent to a circle is 24 cm and distance of  $Q$  from the center is 25 cm.

**Q** from the centre is 25 cm. The radius of the circle is :

(A) 12 cm      (B) 7 cm      (C) 15 cm      (D) 24.5 cm

- १० —

- झुकी हों, तो POA बराबर है :

(A) 80 (B) 70 (C) 50 (D) 30

If tangents  $PA$  and  $PB$  from a point  $P$  to a circle with centre  $O$  are inclined to each other at angle of  $70^\circ$ , then  $\angle POA$  is equal to :

- (A)  $80^\circ$       (B)  $70^\circ$       (C)  $55^\circ$       (D)  $60^\circ$

- 30.** बिन्दुओं (2, 5) और (4, 2) को मिलाने वाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक हैं : 1

(A)  $\left(3, \frac{5}{2}\right)$       (B)  $\left(3, \frac{7}{2}\right)$       (C)  $(-3, 3)$       (D)  $\left(\frac{7}{2}, 3\right)$

Co-ordinates of mid-point of line joining two points (2, 5) and (4, 2) is :

- (A)  $\left(3, \frac{5}{2}\right)$       (B)  $\left(3, \frac{7}{2}\right)$       (C)  $(-3, 3)$       (D)  $\left(\frac{7}{2}, 3\right)$

- 31.**  $x$ -अक्ष पर किसी बिन्दु के निर्देशांक होंगे :

- (A)  $(x, y)$       (B)  $(x, 0)$       (C)  $(0, y)$       (D)  $(y, 0)$

Co-ordinates of any point on  $x$ -axis are :

- (A)  $(x, y)$       (B)  $(x, 0)$       (C)  $(0, y)$       (D)  $(y, 0)$

- 32.** मूल बिन्दु के निर्देशांक हैं :

(A)  $(x, 0)$       (B)  $(x, y)$

(C)  $(0, y)$  (D) इनमें से कोई नहीं

The co-ordinates of origin are :

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| (A) $(x, 0)$ | (B) $(x, y)$      |
| (C) $(0, y)$ | (D) None of these |

33. एक घन का आयतन  $216 \text{ मी}^3$  है, तो इसकी भुजा की लंबाई होगी :

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| (A) 8 मी | (B) 7 मी | (C) 6 मी | (D) 5 मी |
|----------|----------|----------|----------|

The volume of a cube is  $216 \text{ m}^3$ , then the length of its side will be :

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| (A) 8 m | (B) 7 m | (C) 6 m | (D) 5 m |
|---------|---------|---------|---------|

34. वृत्त के व्यास व त्रिज्या में आपसी संबंध है :

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (A) व्यास = त्रिज्या                    | (B) व्यास = $2 \times$ त्रिज्या |
| (C) व्यास = $\frac{\text{त्रिज्या}}{2}$ | (D) त्रिज्या = $2 \times$ व्यास |

The relation between diameter and radius of a circle is :

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| (A) Diameter = Radius                    | (B) Diameter = $2 \times$ Radius |
| (C) Diameter = $\frac{\text{Radius}}{2}$ | (D) Radius = $2 \times$ Diameter |

35. त्रिज्या 2 सेमी तथा ऊँचाई 7 सेमी वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

- |                         |                         |                          |                       |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| (A) $44 \text{ सेमी}^2$ | (B) $88 \text{ सेमी}^2$ | (C) $154 \text{ सेमी}^2$ | (D) $88 \text{ सेमी}$ |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|

The curved surface area of cylinder with radius 2 cm and height 7 cm will be :

- |                       |                       |                        |                     |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| (A) $44 \text{ cm}^2$ | (B) $88 \text{ cm}^2$ | (C) $154 \text{ cm}^2$ | (D) $88 \text{ cm}$ |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|

36. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा :

- |                          |                         |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (A) $154 \text{ सेमी}^2$ | (B) $44 \text{ सेमी}^2$ | (C) $88 \text{ सेमी}^2$ | (D) $22 \text{ सेमी}^2$ |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

The area of a circle with radius 7 cm will be :

- |                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (A) $154 \text{ cm}^2$ | (B) $44 \text{ cm}^2$ | (C) $88 \text{ cm}^2$ | (D) $22 \text{ cm}^2$ |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

( 8 )

5503/(Set : D)

**37.** निम्नलिखित ऑकड़ों का माध्यक क्या है ?

1

32, 24, 30, 27, 21



What is median of the following data ?

32, 24, 30, 27, 21



**38.** निम्नलिखित आँकड़ों का बहुलक क्या है ?

1

2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 3



What is mode of the following data ?

2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 3



**39.** किसी घटना की प्रायिकता ..... से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा ..... से छोटी या उसके बराबर होती है।

1



The probability of an event is greater than or equal to ..... and less than or equal to ..... .

- (A)  $-1, 1$       (B)  $1, 0$       (C)  $-1, 0$       (D)  $0, 1$

**40.** किसी घटना  $E$  के लिए निम्न रिक्त स्थान भरें :

1

$$P(\bar{E}) = \dots - P(E)$$



For an event E complete the following statement :

$$P(\bar{E}) = \dots - P(E)$$